



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1935 (श0)  
(सं0 पटना 115) पटना, शुक्रवार, 24 जनवरी 2014

सं0 2ब0/ना0सु0 03-18/2013—121(जे0)/न0वि0 एवं आ0वि0  
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प  
17 जनवरी 2014

**विषय:-** पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा पहाड़ी (पटना-गया रोड) थाना नं0-14 में सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर नये बस टर्मिनल के निर्माण हेतु "हडको" से बैंक गारंटी के विरुद्ध ₹ 220.51 करोड़ (दो सौ बीस करोड़ एकावन लाख) ऋण प्राप्त कर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा नये बस टर्मिनल के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना में अनेक सुविधाओं के साथ-साथ राज्य सचिवालय, अध्ययन की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा इत्यादि के कारण पूरे राज्य की जनता पटना की ओर आकर्षित हो रही है। इसके कारण राज्य के विभिन्न शहरों से सुगम आवागमन की व्यवस्था बनाये रखने हेतु पटना में एक उच्च कोटि के बस टर्मिनल के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है। इस नये बस टर्मिनल में यात्रियों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखने हेतु आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा।

2. पटना शहर में नये बस टर्मिनल के निर्माण हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। प्रस्तावित बस टर्मिनल का निर्माण पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा-पहाड़ी, (पटना-गया रोड) थाना नं0 14 में सरकार द्वारा अर्जित 25.02 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। योजना के पूर्ण होने पर यह परिसम्पत्ति नगर विकास एवं आवास विभाग की होगी तथा "बुडको" द्वारा इसका परिचालन किया जाएगा।

3. इस योजना के लिए "बुडको" द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के आधार पर योजना की कुल प्राक्कलित राशि ₹ 220.51 करोड़ (दो सौ बीस करोड़ एकावन लाख) रुपये है। इस में 1% Contingency तथा 8% Centage शामिल है। पटना शहर में नये बस टर्मिनल के निर्माण पर ₹ 220.51 करोड़ (दो सौ बीस करोड़ एकावन लाख) का व्यय संभावित है। नये बस टर्मिनल का निर्माण पटना-गया रोड पर स्थित नगर विकास एवं आवास विभाग की जमीन पर किया जाना है। जमीन का व्यौरा निम्नवत है :-

मौजा - पहाड़ी,	थाना नम्बर - 14	थाना - पटना सिटी
परगना - अजीमाबाद	जिला - पटना	रकबा - 25.02 एकड़

4. इस योजना हेतु सम्पूर्ण व्यय बुडको द्वारा हडको से ऋण प्राप्त करके किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन दो वर्षों में किये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा योजना के कार्यान्वयन के उपरान्त चयनित संवेदक द्वारा

ही प्रथम चरण में 5 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाएगा। निम्न तालिका अनुसार विभिन्न वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाएगा:-

(राशि करोड़ में)				
क्र.	वित्तीय वर्ष	व्यय (प्रतिशत में)	हडको ऋण	वित्तीय वर्ष में कुल व्यय
1	2013-14	25%	55.13	55.13
2	2014-15	75%	165.38	165.38
योजना पर कुल व्यय				220.51

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जय सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 115-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>